

**Tour programme of AMG-III-AP- 03 for the 4<sup>th</sup> Quarter of 2022-23**  
**2022-23 की चौथी तिमाही के लिए AMG-III-AP-03 का दौरा कार्यक्रम**

पार्टी कार्मिक/Party Personnel:-

सर्वश्री/S/Sri

1. Purushotam Subudhi, SAO
2. Dillip Kumar Hazary, AAO
3. Bijoy Kumar Sahoo-II, AAO

Sl. No क्रम सं.	Name of the auditee. ऑडिटि का नाम	Telephone No. दूरभाष सं.	Period of audit लेखापरीक्षा की अवधि	Period to be covered in Audit लेखापरीक्षा में शामिल होने वाली अवधि	No. of days. दिनों की सं.	Holidays. अवकाश
<b>Desk Review on 12.01.2023 and 13.01.2023 &amp; Transit to Koraput on 15.01.2023</b>						
1	DIVISIONAL FOREST OFFICER, Koraput		16.01.2023 to 25.01.2023	2021-22	08	Jan-22,23,26, 28,29
<b>Transit to Sambalpur on 26.01.2023</b>						
2	DIVISIONAL FOREST OFFICER, Sambalpur		27.01.2023 to 06.02.2023	2021-22	08	Feb-5
<b>Transit to Bolangir on 07.02.2023</b>						
3	DIVISIONAL FOREST OFFICER, Bolangir		08.02.2023 to 17.02.2023	2021-22	08	Feb-11,12,18, 19
<b>Transit to Paralakhmudi on 18.02.2023</b>						
4	DIVISIONAL FOREST OFFICER, Paralakhmudi		20.02.2023 to 01.03.2023	2021-22	08	Feb-25,26
<b>Transit to Athamalik on 02.03.2023</b>						
5	DIVISIONAL FOREST OFFICER, Athamalik		03.03.2023 to 15.03.2023	2018-19 to 2021-22	08	March-5,(7,8,11, 12)*
<b>Transit to Phulbani 16.03.2023</b>						
6	DIVISIONAL FOREST OFFICER, Phulbani		17.03.2023 to 24.03.2023	2018-19 to 2021-22	07	March-19
<b>Transit to Ghumsur on 25.03.2023</b>						
7.	DIVISIONAL FOREST OFFICER, Ghumsur(N)		27.03.2023 to 06.04.2023	2022-123	08	March-26,30 April-1,2
<b>Transit to Bhubaneswar on 07.04.2022</b>						
*Holidays to be spent at Bhubaneswar availing normal return transit (AN) and onward (FN) transit. सामान्य वापसी पारगमन (अप.) और आगे (पूर्वा.) पारगमन का लाभ उठाते हुए भुवनेश्वर में छुट्टियां बिताई जाएंगी।						
The Officer/officials has to perform daily to and fro journey in respect of units located at Cuttack and Khurda कटक और खर्दा में स्थित इकाइयों के संबंध में अधिकारी/कर्मचारियों को दैनिक यात्रा करनी होती है।						

**फील्ड पार्टियों के लिए अनिवार्य निर्देश/Mandatory Instructions to Field Parties**

1. RO may submit a list of cases under the period of audit by the end of 2<sup>nd</sup> day and the selection made from above for audit and send to the Sr.AO/AMG-III(C)(I/c) govt. mail\* and man-days may be reviewed accordingly for surrender or extension.
2. **Revision of Tour Programme:** Prior Telephonic Permission are to be obtained in advance from Group Officer for any suggestion /request for extension/surrender of working days in a Programme followed by written request with detailed justification.
3. **Paragraphs:** All the quoted Act/Rule/Orders/Notification etc. mentioned in preamble and facts & figures of paragraphs are to be supported by relevant and legible key documents (KDs).
4. **Wanting KDs:** Any wanting KD(s) shall be collected by the contributor of Paragraph at his own expense and own time by availing CL/EL at the instruction of vetting / Report section.
5. **Annexure (s):** All the facts and figures of an annexure should be in Excel Sheet with appropriate formulae as per the prescribed format of vetting section/Appendix of Audit Report and only the conclusion drafted into paragraph as per style guide.
6. **Submission of DIR :** Soft copy of the DIR containing Annexure(s) are to be invariably submitted along with hard copy and again sent to official E-mail of Sr. Audit Officer/Vetting within seven days of Completion of audit.
7. **Leave:** Prior intimation to Group Officer is mandatory before leaving the camp at audit location followed by email/fax/phone for availing any kind of leave.
8. **Adherence to the guidance note** issued by CAG vide letter No.226/09-PPG/2017 dated 23.08.2017 for improving the quality of Inspection Report (mailed to all officers on 23.03.2021) and new auditing standard should be strictly followed.
9. Any material/extraction report/exception report relevant should be collected from the Data Analytic Cell (if available) before proceeding to the field unit.
10. **Man-days may be surrendered,** if assessment records/volume of works less in the year of audit. The parties may proceed to next item with intimation to AMG-III (Hqrs).
11. Parties should collect the soft copies of previous IRs of respective subject from AMG-III Vetting Cell before proceeding to Field unit.
12. Parties should obtain KD in complete form and replies/compliance of the Preliminary Objection Memos issued from the auditee unit so that the paras can be processed/developed smoothly.
13. Any interesting or new points/paras noticed may be promptly intimated to AMG-III vetting cell for circulation among the other concerned field parties for raising similar objection in all the units of the Department audited.
14. Further clarification/documents sought for at the time of vetting may be complied immediately.
15. **Non-Compliance:** Any non-compliance to above instructions may be viewed seriously and reflected in APAR and action deemed fit may be initiated against the Contributor/Reviewing Officer.
16. **Additional Information:** Desk review should be submitted to the Sr.AO/AMG-III(C)(I/c) govt. mail\* along with a copy to Group Officer's mail / Concerned Vetting Section's mail.
17. If the auditee organisation refuses to conduct audit, the audit party should ensure that such refusal should be routed through the concerned administrative department.
18. Both audit party and auditee organisation should follow COVID 19 guidelines issued by the Central/State Governments.
19. All parties are required to work invariably on OIOS. Any constraint in working with OIOS should be intimated immediately to Mr. Rudra Prasanna Rath, SAO, Wing Administrator or Mr. Ritesh Kumar, AAO office Administrator of PAG-II. All records are to be provided through OIOS and should be part of DIR.
20. Non production of records should be included as a para in the DIR and also included in exit meeting with the head of the organization.

Sd/-

उप महालेखाकार/लेप.प्र.स.-III


Dy Accountant General/AMG-III

दिनांक/Date: 02.01.2023

जा. सं. AMG-III-(Hqrs.)-Prog./2022-23/696

प्रतिलिपि अग्रेषित//Copy forwarded to:-

1. Secretary to A.G. (AU-II)
2. PA to D.A.G. (AMG-III)
3. Sr. A.O./AMG-III (Vetting)
4. RO/AAO-AMG-III-Audit Party
5. BO/EDP Cell
6. AMG-III-(Hqrs.) – T.D. Seat. – 2 copies
7. Spare copy

  
02/01/23

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/लेप.स.-III(स.)

Sr. Audit Officer/AMG-III©